

छठें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020
के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी
की सभी भागीदारों से अपील



आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 जून, 2020 को पीडीआईएल द्वारा 6 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाया गया। कर्मचारियों को विशेष रूप से 21 जून, 2020 को सुबह 7 बजे 45 मिनट लंबी कॉमन योग प्रोटोकॉल ड्रिल करके घर से योग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आयुष मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार पीडीआईएल कर्मचारियों के बीच IDY 2020 को बढ़ावा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री के संदेश और अपील को पीडीआईएल के सोशल मीडिया चैनलों पर प्रचारित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की संदेशात्मक वीडियो और अपील को पीडीआईएल के ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया गया। कर्मचारियों से अनुरोध किया गया था कि वे नवीनतम अपडेट और सूचनाओं के लिए आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया एकाउंट का अनुसरण करें, जिन्हें आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर साझा किया गया था। योग @ होम दिशानिर्देश और डिजिटल संसाधनों की सूची पीडीआईएल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। IDY 2020 के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु सैंपल ईमेल और डिजिटल संसाधनों के लिंक के साथ संदेश पीडीआईएल के सभी विभागों और कर्मचारियों को परिचालित किया गया।